

## सिंडिकेट बैंक

प्रधान कार्यालय : मणिपाल  
कॉरपोरेट कार्यालय: बेंगलूरु  
आयोजना एवं विकास विभाग

### ध्यान रखें

आपके खाते की सुरक्षा और धोखाधड़ी को रोकने के लिए आपके द्वारा अपने चेकों, पासबुक, कार्ड, पिनो और अन्य सुरक्षा जानकारी की देखभाल करना आवश्यक है।

कृपया सुनिश्चित करें कि आप नीचे दी गई सलाह का अनुपालन करते हैं:

#### a. ऐसा न करें

- i. अपने चेक बुक और कार्ड को एक साथ रखना।
- ii. रिक्त चेक पर हस्ताक्षर करके रखना।
- iii. किसी को भी अपने कार्ड, पिन, पासवर्ड या अन्य सुरक्षा जानकारी का प्रयोग करने देना।
- iv. अपने पिन, पासवर्ड या अन्य सुरक्षा जानकारी को लिखना या रिकॉर्ड करना।
- v. अपने खाते से संबंधित पासवर्ड या अन्य सुरक्षा जानकारी के बारे में किसी को बताना।

#### b. ऐसा करें

- i. यदि आप चेक को डक के जरिये भेजते हैं, तो जिसके नाम पर चेक देय है उसके नाम को स्पष्ट अक्षरों में लिखें, इससे आपको धोखाधड़ी से बचने में सहायता मिलेगी। हमारी सलाह है कि इस प्रकार के चेक को उसके विपरीत भाग में कार्बन लगा के लिखें ताकि रसायनिक परिवर्तन से बचा जा सके।
- ii. यदि आप अपना पिन बदलते हैं, तो नए पिन का चयन सावधानीपूर्वक करें।
- iii. अपने पिन, पासवर्ड और सुरक्षा जानकारियों को याद कर लें तथा इनमें से किसी की भी प्राप्त लिखित सूचना को यथाशीघ्र नष्ट कर दें।
- iv. अपने कार्ड को अपनी व्यक्तिगत निगरानी में सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ तथा पिन, पासवर्ड और अन्य सुरक्षा जानकारियों को हमेशा गोपनीय रखें।
- v. अपने कार्ड की पावती को सुरक्षित रखें तथा उसका निपटान सावधानीपूर्वक करें।
- vi. यदि आप बैंक खाते में चेक अदा कर रहे हैं तो चेक पर खाताधारक का नाम लिखें (एबीसी बैंक खाता - एक्सवाईजेड)। कृपया खाली जगह में रेखा खींच दें ताकि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति उसमें अतिरिक्त संख्या अथवा नाम न जोड़ सके।

c. हम आपको आपके कार्ड/चेक बुक के दुरुपयोग से बचाने की सलाह देंगे।

d. आपके चेकबुक, पासबुक और एटीएम/डेबिट कार्ड के गुम या चोरी हो जाने या फिर आपके पिन या अन्य सुरक्षा जानकारी को किसी अन्य को ज्ञात हो जाने की स्थिति में, आपके द्वारा सूचित किए जाने पर हम इसे दुरुपयोग से बचाने हेतु अतिशीघ्र कदम उठाएंगे।